



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2340]

नई दिल्ली, शक्रवार, अगस्त 18, 2017/श्रावण 27, 1939

No. 2340]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 18, 2017/SRAVANA 27, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2017

का.आ. 2674(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-167 के हगारी – जेडेचरला खंड के निर्माण (चौड़ीकरण/चार-लेन का बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन एवं प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के क्रमशः स्तंभ (4), (5), (6) और (7) में उल्लिखित जिलों, तालुकों, पुलिस थानों और गांवों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भू-खंड के संबंध में इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अंतर्गत उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को ऐसे प्राधिकारियों के कार्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में रारा-167 के हगारी – जेडेचरला के किमी 125.626 से किमी 182.126 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो-लेन/चार-लेन में चौड़ीकरण के संबंध में भूमि का अधिग्रहण

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	भूमि खण्ड	जिला	तालुक	पुलिस थाना	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग बंगलौर	किमी 125.626 से किमी 182.126 तक	रायचुर महबूबनगर	रायचुर मगानूर	रायचुर कृष्णा	रायचुर गुडेबेल्लुर

[फा. सं. 12037/16/2016-केएनटी (पी-6)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th August, 2017

**S.O. 2674(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorises the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to districts, taluk, police station and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of the National Highway No 167 Hagari Jadcherla section in the State of Karnataka.

**SCHEDULE**

Acquisition of land in respect of Widening to Two-lane with Paved Shoulders / Four Lane from Km 125.626 to 182.126 of NH-167 Hagari Jadcherla in the State of Karnataka.

Sl. No.	Competent authority	Stretch of land	District	Taluk	Police station	Name of village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special Land Acquisition officer, National Highways Bangalore	From Km 125.626 To 182.126	Raichur	Raichur	Raichur	Raichur
			Mahabubnagar	Maganoor	Krishna	Gudebellur

[F. No. 12037/16/2016-KNT (P-6)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.